



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 24, 1981/कार्तिक 2, 1903  
No. 348] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 1981/KARTIKA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1981

सां० कां० नि० 568(अ) — 22 अक्टूबर, 1981 का राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

नागालैण्ड राज्यपाल (भूत और विशेषाधिकार) आदेश, 1981

राष्ट्रपति, नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 22क के अनुसरण में, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् —

1 (1) इस आदेश का नाम नागालैण्ड राज्यपाल (भूत और विशेषाधिकार) आदेश, 1981 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और मार्च 1982 के 31वें दिन निष्प्रभावी हो जाएगा।

2 इस आदेश के निर्वहन के लिये साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) जैसे ही लागू होगा वैसे वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वहन के लिये लागू होता है।

3 इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कार्यवाहक राज्यपाल" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है,

(ख) 'राज्यपाल' से नागालैण्ड राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ग) 'राजकीय निवास के सवध में अनुरक्षण' के अन्तर्गत स्थानीय रेलों और बसों तथा बिजली, गैस और जल की आवश्यकता और मोटर-कारों के सवध में शाफरों के बेलन और भूत तथा तेल और पैट्रोल की व्यवस्था आती है,

(घ) राज्यपाल के सवध में 'राजकीय रेल सलून, नदी यात्रा और वायुयान' से ऐसे रेल सलून, नदी यात्रा और वायुयान, यदि कोई हों अभिप्रेत हैं जिनकी व्यवस्था उनके उपयोग के लिए की जाए,

(ङ) राज्यपाल के सन्ध में "राजकीय निवास" से ऐसा राजकीय निवास अभिप्रेत है, जो इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है और इसके अंतर्गत ऐसा या ऐसे अन्य निवास भी आता है/आते हैं जिसे/जिन्हें राज्यपाल के राजकीय निवास के रूप में प्रयुक्त किया जाए तथा इसके अंतर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन और उनके अनुसन्ध भी आते हैं ;

(च) "राज्य" से नागालैण्ड राज्य अभिप्रेत है।

4. (1) राज्यपाल को, जिसमें कार्यवाहक राज्यपाल भी आता है, उसकी विधुक्ति के संबंध में यथास्थिति, उसे राज्यपाल या कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने कुटुम्ब की यदि, कोई है, यात्रा और कुटुम्ब की जीवनवस्तु में हुए वार्षिक व्ययों के बराबर भत्तों और राज्यपाल या कार्यवाहक राज्यपाल का पद छोड़ने पर उस स्थान तक जहाँ तक सामान्यतः नियुक्ति के समय वह निवास करता था, वापस लाने के लिए समुचित भत्ता संवत्त किया जाएगा।

(2) राज्यपाल को, किन्तु कार्यवाहक राज्यपाल को नहीं, उसकी विधुक्ति के संबंध में निम्नलिखित भी संदत्त किए जाएंगे :—

- (i) 1,600 रुपए का उपस्कर भत्ता ;
- (ii) राज्यपाल के उपयोग के लिए यथास्थिति मोटर कारों के क्रय में खर्च होने वाली राशि को राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत किया जाएगा और वह ऐसी शर्तों के अधीन संदेय होगी, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए ; और
- (iii) उन मोटर-कारों का परिवहन राज्य में करने के लिए भाड़े-और बीमे में राज्यपाल द्वारा किए गए वास्तविक व्यय।

5. राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किराया या भाड़ा संवत्त किए बिना राजकीय निवास, राजकीय रेल सलून तथा नवी-यान और मोटर-कारों का उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी व्यवस्था उसके उपयोग के लिए की गई है और उनके अनुरक्षण के संबंध में वैयक्तिक रूप से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. (1) राज्यपाल को, उसके राजकीय निवास के साज सगान के नवीकरण में किए गए वार्षिक व्यय की बाबत ऐसा भत्ता संदत्त किया जाएगा जिसमें कुल सदस्य राशि इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि से तब तक अधिक नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा उसे बढ़ाया न जाए ;

परन्तु यदि, जब राज्यपाल (कार्यवाहक राज्यपालों को इसमें नहीं रखा जाएगा) पद ग्रहण करता है वह अवधि जो उसके पूर्ववर्ती द्वारा पद ग्रहण किए जाने के पश्चात् से नीत गई है, पांच वर्ष से कम है, तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि में से उतनी राशि कम कर दी जाएगी जितनी राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।

(2) उपरि (i) कार्यवाहक राज्यपाल को लागू नहीं होगा।

7. इस दृष्टि से कि राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों का सुविधापूर्वक और गरिमा के साथ निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ;

नागालैण्ड राज्य की सञ्चित निधि पर, प्रतिवर्ष—

- (क) इस आदेश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि से अनधिक उतनी राशि, जो राज्यपाल द्वारा अपेक्षित की जाए ;
  - (ख) राज्यपाल के राजकीय निवास के अनुरक्षण, सुधार, नवीकरण या प्रतिस्थापन के लिए, इस आदेश की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि से अनधिक उतनी राशि, जो राज्यपाल, द्वारा अपेक्षित की जाए ; तथा
  - (ग) राजकीय रेल सलूनों पर व्यय के लिए उतनी राशि को राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाए ;
- भारित की जाएगी और उसमें से संवत्त की जाएगी ;

परन्तु यह कि :—

- (1) राज्यपाल, जब कभी आवश्यक हो, इस आदेश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक उपशीर्ष से किसी अन्य उप-शीर्ष में राष्ट्रपति के अनुमोदन से पुनर्विनियोग कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार कि वह उसके स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि से अधिक न हो ;
- (2) इस आदेश की द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि में, किसी वर्ष में उतनी राशि की जो पूर्व वर्षों में व्यय न की गई हो और उतनी राशि की भी जो राज्यपाल परिसहायक के छुट्टी भत्तों और पेंशन प्रभारों को चुकाने के लिए आवश्यक समझे, बुद्धि की जा सकेगी ;
- (3) यदि इस आदेश के प्रारंभ पर अनुज्ञेय मंहगाई या अन्य भत्ता किसी समय बेतन में विधीन किया जाए या बढ़ाया या घटाया जाए, तो द्वितीय अनुसूची के समुचित उप-शीर्षों में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि तदनुसार बढ़ा या घटा दी गई समझी जाएगी ;
- (4) राज्यपाल, तृतीय अनुसूची के स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम का अतिक्रमण किए बिना, जब कभी आवश्यक हो, उक्त अनुसूची के एक उप-शीर्ष से उसके किसी अन्य उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग कर सकेगा ;
- (5) राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा, द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में वर्णित राशियों को बढ़ा या घटा सकेगा।

8. पैरा 7 में निर्विष्ट भत्तों और विशेषाधिकारों के प्रतिरिक्त, नए राजकीय निवास को सुसज्जित करने के लिए 50,000 रुपये का प्रारम्भिक व्ययदान,

नागालैण्ड राज्य की संविधान विधि पर भारत किया जाएगा और उसमें से राज्यपाल को संदत्त किया जाएगा।

9. (1) राज्यपाल अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान, अपने भेदन के बचने 2,750 रुपये प्रति मास की दर से केवल छुट्टी भत्ते के लिए हफ्तवार होगा।

(2) कार्यकारी राज्यपाल किसी छुट्टी भत्ते के लिए हफ्तवार नहीं होगा।

10. निम्नलिखित वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे, यदि वे राज्यपाल द्वारा नियुक्ति पर या अपनी पदावधि के दौरान प्राप्तित या बंधपत्र से परे क्रम की जाती हैं:—

- (क) राज्यपाल या उनके कुटुम्ब के किसी सदस्य के निजी उपयोग, लिबास या उपभोग के लिए वस्तुएं;
- (ख) राज्यपाल की गृहस्थी के सदस्यों द्वारा या उसके प्रतिधियों द्वारा, चाहे वे शासकीय हों अथवा नहीं, उपभोग के लिए खाद्य, पेय और तंबाकू;
- (ग) राज्यपाल के राजकीय निवासों में से किसी को सुसज्जित करने के लिए वस्तुएं;
- (घ) राज्यपाल के उपयोग के लिए उपबंधित मोटर कारें।

#### प्रथम अनुसूची

[पैरा 3 (ड०) और 6 (1) देखिए]

राजकीय निवास 1	साज-सामान के नवीकरण के लिए राज्यपाल को अधिकतम भत्ता 2
राजभवन, कोहिमा	रु० 20,000

#### द्वितीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

कतिपय विषयों के बारे में नागालैण्ड राज्य की संविधान विधि पर भारत अधिकतम वार्षिक राशियाँ

आतिथ्य भत्ता	गृहनिर्वाहक (या परि-सहायक) और उसका स्वागत	सत्कार भत्ता	राजकीय निवासों के साज सामान का प्रभु-रक्षण और मरम्मत	कर्मचारियों और गृहस्थी		जोड़
				संविदा भत्ता अर्थात् मोटरकारों के प्रभु-रक्षण सहित प्रकीर्ण व्यय के लिए भत्ता	दौरा व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
4,000	75,000	500	1,500	40,000	1,00,000	2,21,000

#### तृतीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

राज्यपाल के राजकीय निवास के प्रभु-रक्षण और मरम्मत के बारे में अधिकतम वार्षिक राशियाँ

धुंधार	उद्यान	विद्युत	जल	कर	मरम्मत	जोड़
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
15,000	15,000	20,000	2,000	2,000	36,000	90,000

श्रीजय संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 2/47/80-स्टेड्स]

अजीत सिंह मेहता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1981

G.S.R. 566 (E).—The following Order made by the President on 22nd October, 1981 is published for general information :—

## THE GOVERNOR OF NAGALAND (ALLOWANCES AND PRIVILEGES) ORDER, 1981

In pursuance of section 22A of the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), the president hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Governor of Nagaland (Allowances and Privileges) Order, 1981.

(2) It shall come into force at once and shall cease to have effect on the 31st day of March, 1982.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of central Act.

3. In this Order, unless the context otherwise requires, —

(a) "acting Governor" means a person appointed by the President to discharge the functions of the Governor ;

(b) "Governor" means the Governor of the State of Nagaland ;

(c) "maintenance" in relation to official residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricity gas and water and in relation to motor cars, includes the pay and allowances of chauffeurs and the provision of oil and petrol ;

(d) "official railway saloons, river-craft and air-craft" in relation to the Governor mean such railway saloons, river-craft and air craft, if any, as may be provided for his use ;

(e) "official residence" in relation to the Governor means the Official residence specified in column (1) of the First Schedule to this Order and includes such other residence or residences as may be used as the official residence or residences of the Governor and also includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the gardens thereof ;

(f) "State" Means the State of Nagaland.

4. (1) There shall be paid to the Governor, including an acting Governor, in connection with his appointment, an allowance equal to his actual expenses in travelling, with his family, if any, and his family's effects, to take up his duties as Governor or acting Governor as the case may be, and a similar allowance on his vacating the office of Governor, or acting Governor, to return to the place where he ordinarily resided at the time of his appointment.

(2) There shall also be paid to the Governor but not acting Governor, in connection with his appointment,—

(i) an equipment allowance of Rs. 1,600 ;

(ii) a sum to be fixed from time to time by the President and to be payable subject to such conditions as may be determined by him, to be spent on the purchase of suitable motor cars for the use of the Governor ; and

(iii) Governor's actual expenses on the freight and insurance in transporting those motor cars to the State.

5. The Governor, throughout his term of office, shall be entitled without payment of rent or hire, to the use of his official residence and official railway saloons, river-craft and air-craft and of the motor cars provided for his use, and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance thereof.

6. (1) There shall be paid from time to time to the Governor an allowance equal to his actual expenses in renewing the furnishing of his official residence, so, however, that the total amount paid shall not exceed the maximum specified in column (2) of the First Schedule to this Order, unless it is enhanced by a special order of the President :

Provided that if, when the Governor assumes office, the period which has elapsed since his predecessor assumed office (acting Governors being disregarded) falls short of five years, the maximum so specified shall be decreased by such amount as the President may by special order determine.

(2) Sub-paragraph (1) does not apply to an acting Governor.

7. In order that the Governor may be enabled to discharge conveniently and with dignity the duties of his office, there shall in each year, be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Nagaland,—

(a) for each of the purposes specified in the Second Schedule to this Order such amount, not exceeding the maximum amount specified in the appropriate column of that Schedule, as may be required by the Governor ;

(b) for the maintenance, improvement, renewal or replacement of the Governor's official residence such amount, not exceeding the maximum amount specified in the Third Schedule to this Order, as may be required by the Governor ; and

(c) Such amount for expenditure on official railway saloons, river-craft and air-craft as may be determined by a special order of the President :

Provided as follows :—

- (1) that the Governor may, with the approval of the President, reappropriate, when ever necessary, from one sub-head to another sub-head specified in the Second Schedule to this Order, but so as not to exceed the maximum amount specified in column (7) thereof ;
- (2) that the maximum amount specified in column (7) of the Second Schedule to this Order may in any year be increased by the amount not expended in previous years and also by such amount as the Governor may consider necessary to defray the leave-allowances and pension charges of the Aide - de - Camp ;
- (3) that if dearness or other allowances admissible at the commencement of this Order be merged in the pay or increased or reduced at any time, the maximum amount specified against any of the appropriate sub-heads of the Second Schedule to this order shall be deemed to have been increased or reduced accordingly ;
- (4) that the Governor may without exceeding the maximum specified in column (7) of the Third Schedule to this Order, reappropriate, whenever necessary, from one sub-head of the said Schedule to another sub-head thereof ;

(5) the President may, by special order, increase or decrease the amounts mentioned in the Second Schedule and the Third Schedule.

8. In addition to the allowances and privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Nagaland to the Governor an initial grant of Rs. 50,000 for furnishing the new official residence.

9. (1) The Governor shall, during the period of his leave, be entitled only to a leave allowance at the rate of Rs. 2,750 per mensem in lieu of his salary.

(2) An acting Governor shall not be entitled to any leave allowance.

10. No customs duties shall be levied on the following articles if imported or purchased out of bond by the Governor on appointment or during his tenure of office, -

- (a) articles for the personal use, wear or consumption of the Governor or any member of his family ;
- (b) food, drink and tobacco for consumption by members of the Governor's household or by his guests, whether official or not;
- (c) articles for the furnishing of the Governor's official residence ;
- (d) motor cars provided for the Governor's use.

#### THE FIRST SCHEDULE

[see paragraphs 3 (c) and 6 (1)]

Official Residence	Maximum allowance to the Governor for renewal of furnishings
(1)	(2)
The Government House at Kohima	Rs. 20, 000

#### THE SECOND SCHEDULE

(See paragraph 7)

Maximum yearly amounts charged on the Consolidated Fund of the State of Nagaland in respect of certain matter

Sumptuary allowance	Staff and Household					
	Comptroller of House hold (or A.D.C.) and his establishment	Entertain-ment allow-ance	Maintenance and re-pairs of furnishings of official residence	Contract Allowance, that is an allowance for mis-cellaneous expenses, in-cluding maintenance of motor cars	Tour expenses	Total
1	2	3	4	5	6	7
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
4,000	75,000	500	1,500	40,000	1,00,000	2,21,000

## THE THIRD SCHEDULE

(See paragraph 7)

Maximum yearly amounts in respect of official residence of the Governor—

Maintenance and Repairs

IMPROVEMENT	GARDENS	ELECTRI- CITY	WATER	TAXES	REPAIRS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
Rs. 15,000	Rs. 15,000	Rs. 20,000	Rs. 2,000	Rs. 2,000	Rs. 36,000	Rs. 90,000

N. SANJIVA REDDY,  
President.

[No. 2/47/80-States]

A. S. MEHTA, Jt. Secy.